

१. इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिये गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए।

माता यशोदा

मथुरा में कंस राजा के अत्याचार से लोग दुखी थे। कंस ने अपनी बहन देवकी के अनेक पुत्रों को जनमते ही मार डाला था। अब जब देवकी की एक और संतान होने वाली थी तब देवकी के पति वासुदेव बहुत दुखी हो गए। दोनों कंस के जेल में थे।

यमुना नदी के उस पार नंद बाबा के घर में भी बच्चा होने वाला था। नंद बाबा की पत्नी यशोदा को इस बात से बड़ा दुख हुआ कि देवकी बहन के एक और बच्चे को मार दिया जाएगा। यशोदा ने निश्चय किया कि देवकी बहन का बच्चा जिएगा और वह स्वयं अपना बच्चा कंस के हवाले कर देगी। नंद बाबा भी मान गए।

नंद बाबा ने जेल में जाकर वासुदेव से भेंट की और यशोदा के त्याग की बात कही। वासुदेव और देवकी रो पड़े। नंद बाबा ने वासुदेव से कहा - "जेल का मुख्य अफसर मान गया है। जैसे ही बच्चे का जन्म होगा, वैसे ही उसे यहाँ से निकालने की सुविधा दी जाएगी।"

देवकी ने जेल में बच्चे को जन्म दिया। अष्टमी की आधी रात थी। नदी-नाले उमड़ पड़े थे। वासुदेव ने कपड़े में बच्चे को लपेटा। उसे टोकरी में लेकर चल दिए। जेलर ने दरवाज़ा खोल दिया। वासुदेव ने भगवान का नाम लिया और वे नदी में उतर गए। वे बाबा नंद के घर पहुँचे। नंद जी के घर में बेटी का जन्म हुआ था।

वासुदेव ने नंद बाबा को पुत्र सौंप दिया और यशोदा की पुत्री को लेकर वापस जेल में आ गए। उधर यशोदा ने देवकी के पुत्र को बड़े लाड़-प्यार से पाला। अपनी संतान से भी अधिक उसे प्यार दिया। यशोदा का प्यार-दुलार देखकर सभी ने सराहा। वही बच्चा कृष्ण था, जिसने मथुरा-वासियों का उद्धार किया।

**प्रश्न :-**

- (क) किसने अपनी बहन के बच्चों को मार डाला था ? [3]  
(ख) यशोदा माता ने क्या करने का निश्चय किया ? [3]  
(ग) नंद बाबा और वासुदेव कहाँ मिले थे ? [3]  
(घ) देवकी के बच्चे का जन्म कब हुआ ? [3]  
(ङ) कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था ? [3]  
(च) बच्चे को जेल से निकालने में किसने सुविधा दी ? [3]  
(छ) किसने मथुरा वासियों का उद्धार किया ? [3]  
(ज) अगर नंद बाबा न होते तो क्या होता ? [4]

**2. क्रियाओं के उचित रूप लिखिए :-**

- (क) दादी जी को बिते दिनों की याद ..... । (आना)  
(ख) भारतीय मज़दूरों को प्रलोभन दिया ..... । (जाना)  
(ग) वे इन अमानुषिक व्यवहार करने वालों की शिकायत किससे ..... । (करना)  
(घ) सहदेव महतो दादा जी का परम मित्र ..... । (होना)  
(ङ) मालिकों ने मज़दूरों पर अनुचित दबाव ..... । (डालना) [10]

**3. रेखांकित शब्दों को बहुवचन में लिखिए :-**

- (क) घर की छत उड़ गई होगी ।  
(ख) सड़क टूट गई होगी ।  
(ग) मैंने बंदर को धूप सेंकते देखा था ।  
(घ) मुन्नी ने कली को तोड़ दिया ।  
(ङ) मेरे भाई के पास दस खिलौना हैं । [20]

**4. उचित शब्द चुनकर खाली जगहों की पूर्ति कीजिए :-**

टोका, चल, कोठी, बेहोश, प्रलोभन, गालियाँ, जानलेवा, अस्पताल, खेतों, अमानुषिक

हमारे पूर्वज मालवाहक जहाज द्वारा मोरिशस पहुँचे। उन्हें तरह-तरह के ..... दिए गए। वे ..... में रहते थे और ..... में काम करते थे। गोरे उनके साथ ..... व्यवहार करते थे।

एक दिन गोरा मालिक दादा जी को ..... देने लगे। इस पर सहदेव महतो ने गोरे मालिक के ..... । गोरे मालिक को बुरा लगा और उसने अपने भूखे कुत्तों को उसके पीछे छोड़ा। ..... कुत्ते सहदेव महतो को नोच-नाच कर काटने लगे। सहदेव महतो ..... हो गया और उसे कोठी के ..... में भरती किया गया। कुछ दिनों के बाद वह ..... बसा। [20]

**5. किसी एक विषय पर लगभग (120) शब्दों का एक निबन्ध लिखिए :-**

- (क) अपने दादा से सुनी हुई एक छोटी कहानी लिखिए ।  
(ख) मेरा प्रिय जानवर ।  
(ग) सकूल का पहला दिन। [25]